

अर्द्धवार्षिक परीक्षा सत्र- 2020-21

कक्षा - 10वीं

विषय - सामाजिक विज्ञान समय

प्र.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए।

(i) मानव सर्वाधिक उपयोग करता है -

(अ) भौम जल (ब) महासागरीय जल (स) पृष्ठीय जल (द) वायुमंडलीय जल

(ii) वन संसाधन की प्रमुख समस्या है -

(अ) मछली पालन (ब) रेगिस्तान का विस्तार (स) वनों में लगने वाली आग (द) आदिवासी गतिविधि

(ii) विश्व स्तर पर पहला भू-शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था -

(अ) जापान (ब) भारत (स) ब्राजील (द) यू.एस.ए.

(iv) 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे -

(अ) कुंवर सिंह (ब) बख्तावर सिंह (स) तात्या टोपे (द) अहमदुल्ला खां

(v) कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे -

(अ) दादा भाई नौरोजी (ब) अरविंद घोष (स) गोपालकृष्ण गोखले (द) व्योमेशचंद्र बनर्जी

(vi) घाना पक्षी विहार स्थित है -

(अ) केरल में (ब) राजस्थान में (स) प.बंगाल में (द) म.प्र. में

प्र.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।

(i) भारत में केवल ..... प्रतिशत भू-भाग पर वन है।

(ii) मौसम मानचित्र में वायुदाब ..... में दर्शायी जाती है।

(iii) भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य ..... है।

- (iv) वाइसराय ..... की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी।
- (v) 1857 ई. की क्रांति ..... स्थान से प्रारंभ हुई थी ?
- (vi) सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य ..... है।

प्र.3 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिये।

- (i) कौन-सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है?
- (ii) जैक आफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है ?
- (iii) भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है?
- (iv) बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया ?
- (v) 1857 ई. की क्रांति के क्या प्रतीक थे?
- (vi) भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है?

प्र.4 सही जोड़ी बनाइये।

- (i) रबर - पश्चिमी बंगाल
- (ii) डिग्बोई - केरल
- (iii) कपास - आन्ध्रप्रदेश
- (iv) चावल - महाराष्ट्र
- (v) तम्बाकू - असम
- (vi) नीली क्रांति - मछली

प्र.5 सत्य/असत्य में उत्तर दीजिये।

- (i) आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना हैं।
- (ii) 1857 ई. की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी।

- (iii) राजस्थान में मरूस्थलीय मिट्टी पाई जाती है।
- (iv) लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है।
- (v) इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था।
- (vi) काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

प्र.6 वनों पर आधारित उद्योगों को बताइये?

प्र.7 वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं?

प्र.8 जल प्रदूषण को रोकने का उपाय बताइये?

प्र.9 वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन-कौन से हैं?

प्र.10 मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है?

प्र.11 श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं?

प्र.12 हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं?

प्र.13 आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है?

प्र.14 प्रतिचक्रवात क्या है?

प्र.15 चक्रवात क्या है?

प्र.16 आपदाओं से क्या तात्पर्य है?

प्र.17 महामारी कैसे फैलती है? बताइये।

प्र.18 बाढ़ नियंत्रण के कोई चार उपाय लिखिए।

प्र.19 भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे?

- प्र.20 राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी? लिखिए।
- प्र.21 कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? वर्णन कीजिये।
- प्र.22 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए?
- प्र.23 औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है?
- प्र.24 लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?
- प्र.25 पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से ढका है तथापि पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है तीन प्रमुख कारण देकर समझाईये?
- प्र.26 संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, समझाइए।
- प्र.27 हमारे देश में खनिज संपदा का भण्डार है। किस प्रदेश में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है?
- प्र.28 छोटा नागपुर के पठार में कौन-कौन से खनिज पाये जाते हैं? उनमें से किसी एक का उपयोग लिखिए।
- प्र.29 जीवन कृषि पर निर्भर है जहां कृषि लाभदायक नहीं है वहां जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता स्पष्ट कीजिये।
- प्र.30 गैर परम्परागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है? व्याख्या कीजिये।
- प्र.31 ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाये गये समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे?

प्र.32 अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया? अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाईये।

प्र.33 भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चित के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई?

प्र.34 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है?

प्र.35 आपदा प्रबंधन का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं?

प्र.36 भू-स्खलन की आपदा से बचने के लिए प्रयुक्त तीन चरणों को लिखिए।

प्र.37 पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा अधिक पड़ने का क्या कारण है?

प्र.38 निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइये ।

(1) धुन्ध

(2) कोहरा

(B) फुहार

(4) ओला

प्र.39 भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र को प्रश्न पत्र से अलग कर उत्तर पुस्तिका में संलग्न करें।

(1) कच्छ का रन

(2) कर्क रेखा

(3) मालवा का पठार

(4) बंगाल की खाड़ी

अथवा

(1) जूट उत्पादक क्षेत्र

(2) गन्ना उत्पादक क्षेत्र

(3) चाय उत्पादक क्षेत्र

(4) चावल उत्पादक क्षेत्र

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल द्रष्टि बाधित परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न क्रमांक 30 के स्थान पर हल करें।

मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाती है? लिखिए।

